

राजभाषा विभाग की जुलाई, 2021 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (1) मैंने 28 जुलाई, 2021 को यूको बैंक के मुख्यालय(कोलकाता), 29 जुलाई, 2021 को कौल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता, 30 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न में केनरा बैंक के मुख्यालय (बैंगलुरु) तथा अपराहन में बीईएल, बैंगलुरु द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठियों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इनमें हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन में 12 'प्र' (प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, प्राइज़, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रमोशन, प्रतिबद्धता और प्रयास) की भूमिका पर प्रकाश डाला और राजभाषा हिन्दी में मूल कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
- (2) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिनांक 05.07.2021 से 09.07.2021 तथा 26.07.2021 से 30.07.2021 तक पाँच दिवसीय ऑनलाइन कार्यशालाओं का संचालन किया गया जिनमें क्रमशः 36 तथा 39 कार्मिकों ने सहभागिता की।
- (3) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा जुलाई माह में 2,416 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया गया।
- (4) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो व इसके केन्द्रों द्वारा 01 संक्षिप्त तथा 01 त्वरित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिनमें 59 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।
- (5) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से **78 ई-निरीक्षण, 91 ई-बैठकें तथा 46 अन्य बैठकें /वेबिनार** किए गए।
- (6) विभाग द्वारा 41 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (7) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के 01 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को रिक्ति वर्ष 2021 में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई।
- (8) संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप-समितियों द्वारा दिल्ली, पुणे, लेह-लद्दाख, श्रीनगर तथा जम्मू में स्थित 91 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

- (9) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद हेतु स्तरीय हिन्दी पुस्तक सूची-वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गयी है।
- (10) वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2019-20 की मुद्रित प्रतियाँ प्रैस से प्राप्त की गई तथा इनको माननीय गृह राज्य मंत्री(एएम)से अधिप्रमाणित कराया गया।
